

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/ चैत्र 9, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 446
No. 05]	DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939	[N.C.T.D. No. 446

भाग—II खंड 1

PART—II Section 1

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय, दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 29 मार्च, 2017

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(25)/2017/13072.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सं. 576/एक्जिट/ई.सी.आई./पत्र/व्यावहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-II/2017.— यतः, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य विधान सभाओं के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 09.03.2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/24/2017 के द्वारा की जा चुकी है ;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 09-04-2017 (रविवार) को

पूर्वाह्न 07:00 बजे से 12-04-2017 (बुधवार) को अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 09 मार्च, 2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/24/2017 के द्वारा घोषित जम्मू एवं कश्मीर में 02-श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-अनन्तनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 06-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं असम में 113-धेमाजी(अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36-भोरंज(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 09-अटेर एवं 89-बांधवगढ़(अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 214-ननजनगुड(अ.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04-लिटिपाड़ा(अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28-अपर बुरुटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,
के.एफ.विल्फ्रेड, प्रधान सचिव

चन्द्र भूषण कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 29th March, 2017

No.CEO/COE/102 (25)/2017/13072.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

No. 576/Exit/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.II/2017/.—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People and to Legislative Assemblies in the states of Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, NCT of Delhi, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, West Bengal has been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/24/2017, dated 9th March, 2017.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under Sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. on 09.04.2017 (Sunday) and 6.30 P.M. on

12.04.2017(Wednesday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/24/2017, dated 09th March, 2017 from 2-Srinagar PC, 3-Anantnag PC in Jammu & Kashmir, 6 – Malappuram PC in Kerala, 113- Dhemaji(ST) AC in Assam, 36 - Bhoranj(SC) AC in Himachal Pradesh, 09- Ater AC & 89-Bandhavgarh(ST)AC in Madhya Pradesh, 216 – Kanthi Dakshin AC in West Bengal, 79 – Dholpur AC in Rajasthan, 214 – Nanjangud (SC) AC & 224- Gundlupet AC in Karnataka, 11- Dr. Radhakrishnan Nagar AC in Tamil Nadu, 04 – Litipara(ST)AC in Jharkhand, 28-Upper Burtuk AC in Sikkim, 27 – Rajouri Garden AC in NCT of Delhi, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By Order,
K.F.WILFRED, Principal Secretary

By Order,
CHANDRA BHUSHAN KUMAR, Chief Electoral Officer, Delhi